



KARUNA DEVI FOUNDATION

GIVE MORE BE KIND

KARUNA DEVI FOUNDATION REGISTRATION NUMBER :351

KARUNA DEVI FOUNDATION UNIQUE ID: DL/2022/0304313

KARUNADEVI FOUNDATION WEBSITE :
WWW.KARUNADEVIFOUNDATION.ORG.IN

KARUNA DEVI FOUNDATION EMAIL ID: support@karunadevifoundation.org

KARUNA DEVI FOUNDATION CONTACT NO.: 9044777033

PATIENT NAME	MASTER. ABDUL SAMAD
PATIENT AGE	5 YEARS
DISEASE	BLOOD CANCER
HOSPITAL	AIIMS DELHI

FOR ONLINE AND OFFLINE DONATIONS

BANK NAME	HDFC
ACCOUNT TYPE	CURRENT
ACCOUNT NO	50200059270901
IFSC CODE	HDFC0001317
BRANCH	KAROL BAGH NEW DELHI

SCAN FOR PAYTM, GPAY, PHONE PE



UPI ID : 9044777033@PAYTM

DR. BRA INSTITUTE ROTARY CANCER HOSPITAL HOSPITAL
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
RAILWAY CONCESSION FORM

UHID 106598688

IRCH No. 292555

Concession Certificate

Outward Journey

Concession to Cancer/ Thalassemia /Heart(Only for heart Operation)/T.B./Lupas Valgaris / Non infectious Leprosy / Patient suffering from severe /Moderate form of Hemophilia/ AIDS/Sickle cell Anaemia/Aplastic Anaemia/ Ostomy patients** to be used by Office-in-charge of the Hospital recognized by Health Department of Government of the concerned State Government.

To

The Station Master

Farrukhabad

This is to certify that Mr./ Mrs. /Ms. **MISTER ABDUL SAMAD ANSARI** Whose particulars are furnished below, is a bonafide Concession to **CANCER** / Thalassemia/Heart/TB/Lupas valgaris/Non-infectious Leprosy Major / Patients suffering from severe/moderate form of Hemophilia/ Aids/Sickle cell Anaemia / Aplastic Anaemia/ Ostomy patients ** required to travel from (Station) **Farrukhabad** (Station) to **Delhi** (Station). The patient has secured on admission for treatment / is travelling for periodically checkup at **IRCH(AIIMS)** hospital.

Particulars of the Patients

Age 4 Years

Sex Male + one Attendant

Station From New Delhi

Date: 5/9/2023


Signature

Officer-in-charge of the

Department of central Government/
State Government (Name of the State)

Seal/Stamp of the Hospital/Institute

** Strike out where not applicable

+ Indicate name of the Hospital (recognized by Health Department of Central Government or State Government concerned)

वि.स.से.ए. डॉ. बी.रा.अं.सं.रो.हॉ.सं.
MSSU, Dr. BRA, IRCH
नई दिल्ली
Delhi-110029
AIIMS, Delhi

अधिकारी
Officer incharge
डॉ. बी.आर.एस.रो.कं.अ.
Dr. B.R.A.I.R.C.H.
नई दिल्ली
नई दिल्ली
Dr. B.R.A.I.A.I.M.S.
नई दिल्ली
New Delhi-29

Note:

1. The certificate is valid for three months from the date of issue except for cancer patients which is valid for one year.
2. No alteration in this form is permitted.
3. Certificate should be issued to patients only for the station serving his place of Residence to the station serving the recognized hospital



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
NATIONAL CANCER INSTITUTE

UHID:	106598688	Sex :	Male
Patient Name :	Mr. MISTER ABDUL SAMAD ANSARI	Sample Received Date :	02/09/2023 01:10 PM
Age :	4 years 5 months 13 days	Department :	Medical Oncology
Unit Name :	Unit-I	Unit Incharge :	
Lab Name:	NCI CORE LAB	Lab Sub Centre:	
Reg Date :	20/03/2023 10:27 AM	Sample Collection Date:	02/09/2023 08:12 AM
Report Generated Date:	02/09/2023 04:40 pm	Dept / IRCH No:	292555
Recommended By:	Mr nitin	Lab Reference No:	729

Sample Details : S020923080

Report

Test Name	Result	Comment	Normal Range
AMYLASE	65 U/L		• 30 - 118 U/L
Magnesium	1.890 mg/dL		• 1.3 - 2.7 mg/dL
Lipase	16 U/L		• 12 - 53 U/L
<u>LFT</u>			
TOTAL BILIRUBIN	0.400 mg/dL		• 0.3 - 1.2 mg/dL
DIRECT BILIRUBIN	0.200 mg/dL		• < 0.3 mg/dL
INDIRECT BILIRUBIN	0.2 mg/dL		• < 0.9 mg/dL
SGPT/ALT	32 U/L		• 10 - 49 U/L
SGOT/AST	37 U/L		• < 34 U/L
TOTAL PROTEIN	4.800 g/dL		• 5.7 - 8.2 g/dL
ALKALINE PHOSPHATASE	133 I.U.		• 46 - 116 U/L
GLOBULIN	1.6		• 2.5 - 3.4 g/dL
A/G Ratio	2 ratio		• 1.2 - 2.2 ratio
Albumin	3.200 g/dL		• 3.2 - 4.8 g/dL
Gamma-Glutamyl Transferase	15		• < 73 U/L
<u>RFT</u>			
UREA	19.300 mg/dL		• < 50 mg/dL
CREATININE	0.210 mg/dL		• 0.7 - 1.3 mg/dL
CALCIUM	8.000 mg/dL		• 8.7 - 10.4 mg/dL
PHOSPHOROUS	4.500 mg/dL		• 2.4 - 5.1 mg/dL
SODIUM (NA)	141 mmol/L		• 132 - 146 mmol/L
POTASSIUM (K)	3.700 mmol/L		• 3.5 - 5.5 mmol/L
CHLORIDE(CL-)	105 mmol/L		• 99 - 109 mmol/L
Uric Acid	5.000 mg/dL		• 3.7 - 9.2 mg/dL

Over All Comment :



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
NATIONAL CANCER INSTITUTE

UHID:	106598688	Sex :	Male
Patient Name :	Mr. MISTER ABDUL SAMAD ANSARI	Sample Received Date :	02/09/2023 04:47 PM
Age :	4 years 5 months 13 days	Department :	Medical Oncology
Unit Name :	Unit-I	Unit Incharge :	
Lab Name:	NCI CORE LAB	Lab Sub Centre:	
Reg Date :	20/03/2023 10:27 AM	Sample Collection Date:	02/09/2023 08:12 AM
Report Generated Date:	02/09/2023 05:01 pm	Dept / IRCH No:	292555
Recommended By:	Mr. natin	Lab Reference No:	1740

Sample Details : E020923074

Report

Test Name	Result	Comment	Normal Range
CBC			
Hemoglobin	10.000 g/dL		• 13 - 17 g/dL
Hematocrit	31.92 %		• 40 - 50 %
RBC Count	3.360 $10^6/\mu\text{L}$		• 4.5 - 5.5 $10^6/\mu\text{L}$
WBC Count	6.810 $10^3/\mu\text{L}$		• 4 - 10 $10^3/\mu\text{L}$
Platelet Count	368 $10^3/\mu\text{L}$		• 150 - 400 $10^3/\mu\text{L}$
MCV	95.000 fL		• 83 - 101 fL
MCH	29.7619 pg		• 27 - 32 pg
MCHC	31.3283 g/dL		• 31.5 - 34.5 g/dL
RDW	24.000 %		• 11.6 - 15 %
DLC			
Neutrophils	25.600 %		• 40 - 80 %
Lymphocytes	23.900 %		• 20 - 40 %
Eosinophils	0.100 %		• 0 - 7 %
Monocytes	38.100 %		• 3 - 11 %
Basophils	0.500 %		• 0 - 2 %
Neutrophils - Abs	1.74336 $10^3/\mu\text{L}$		• 2 - 7 $10^3/\mu\text{L}$
Lymphocytes - Abs	1.62759 $10^3/\mu\text{L}$		• 1 - 3 $10^3/\mu\text{L}$
Eosinophils - Abs	0.00681 $10^3/\mu\text{L}$		• 0.02 - 0.5 $10^3/\mu\text{L}$
Monocytes - Abs	2.59461 $10^3/\mu\text{L}$		• 0.2 - 1 $10^3/\mu\text{L}$
Basophils-Abs	0.03405 $10^3/\mu\text{L}$		• 0 - 0.1 $10^3/\mu\text{L}$

Over All Comment : kindly correlate clinically

Authorised Signatory

Verified By
ashishlabnci



डा. बी. आर. अम्बेडकर संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल
Dr. B.R. Ambedkar Institute Postgraduate Medical Education and Research Hospital

अ.भा.उ
बहि
अस्पताल के अन्तर्गत

DR. B.R.A. IRCH, AIIMS, NEW DELHI

OPR-6

IRCH No. 292555 Reg. Date-20/03/2023
Clinic Paediatric Medical Oncology Clinic Clinic No. 6685/2023
Deptt. MEDICAL ONCOLOGY General



UIIID-106598688

एकक/Unit M.O.
विभाग/Dept. Paediatric
नाम/Name

नाम MISTER ABDUL SAMAD ANSARI
S/O- NAJIR Sex/Age M/4Y

दिनांक/Date of Birth

73909

Address GARHI HAFIZULLA KHAN, FARRUKHABAD, UTTAR PRADESH, Pin 209625, INDIA

निदान/Diagnosis

ALL consolidation IR

दिनांक/Date

उपचार/Treatment

date

8/05/2023

आज N/A

आज N/A

आज N/A

Tab 6 MP 1/2 tab HS X 4 weeks (21st May 4 weeks)

inj. Emeset 3mg IV

inj. Rena 3mg IV

inj. Endoxan 250mg IV PRD 2

inj. mesna 150mg IV P1 & P2

inj. AraC 50mg SC/VP D1-D2

9/05, 10/05, 11/05

15/05, 16/05, 17/05

- Syt- Emeset (2mg/5ml) 5ml 1/2 hr pre AraC
KIT MTX - 12 mg - P1 come on 10/5/23 @ 8:30am

inj. yCSF 50mg SC OP w.e.f. 19/05/2023
D2 20/5/23 xrsday P-T-O

अंगदान-जीवन की बहुमूल्य उपहार/ORGAN DONATION - A GIFT OF LIFE

O.R.B.O., AIIMS, 26588360, 26593444, www.orbo.org Helpline - 1060 (24 hrs service)

बाहर से आने वाले रोगियों के लिए धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है/Dharamshala facility is available for outstation patients

22/5/23 01/05/23 24/5/23

F/v on 24/05/2023 CBC

collect BMA report

reepam

10/5/2023

Please do railway
consession

17/05/23

Syp Azon^o
1/2 tsp BD

Syp Augmentin^o
125mg | 5ml -
5ml TDS

N/H 6mP/mrx
- rab Folvite 2.5mg OD (प्रबार)
- 20 PRBC @ Daycare or
Peds Eng

R/v: 24/5 CBC

gho

19/5/23

Please allow to stay in Anaramshale x 1 week

bashe
SRMD

PRBC
25/05

24/5/23

Stop b-MP
वक्त कारती है

BT-10
T. Folvite 5mg OD x 1 wk
by G-1st 75mcg s/c day
x 4 day

R with CBC on 29/5

कमरा नं. 15

CC of D
24/5/23
D3
26/5/23
D4
27/5/23
D5
28/5

Day
Care
2nd Floor

5

28/6/23

FEVER x 1 DAY qw dy cough +

P/1st Capizzi (1a-6)

non neutropenic

Adv . 1) TAB AUGMENTIN (600) ~~600~~ ~~600~~ ~~600~~
DWO $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$. x 5 days

2) F/U 3-7-23 CAC/UR/ECG.

3) C/H sepiⁿ / Acicⁿ
Amⁿ

3/7/23 Cont Septⁿ an / Acicⁿ

Inj. VCR D. 75mg 2VP

Inj. MTX 50mg 2VP

Inj. Zofen 400mg 2VP

on the
of 1/8

3/7

Inj. B-CSF 75mcg s/c

4/7 5/7 7/7

Fu with UoC on 10/7

↓ low carb



डा. बी. आर. अम्बेडकर संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल
Dr. B.R. Ambedkar Institute Rotary Cancer

अ.भा.आ.सं. अस्पताल/A.I.I.M.S.
बहिरंग रोगी विभाग/Outpatient
अस्पताल के अन्दर धूम्रपान मना है/SMOKING

6386152609

DR. B.R.A. IRCH, AIIMS, NEW DELHI
Reg. Date-20/03/2023
Clinic No. 6685/2023
UHD-106598688
IRCH No. 292555
Clinic Paediatric Medical Oncology Clinic
Deptt. MEDICAL ONCOLOGY
General
Name MISTER ABDUL SAMAD ANSARI
S/O- NAJIR
Address GARIH HAFIZULLA KHAN, FARRUKHABAD, UTTAR
PRADESH, Pin 209625, INDIA
Sex/Age M/4Y
Room Board Room (Shift Morning)
CK73909

एकक/Unit _____
विभाग/Dept. _____

नाम/Name <i>Abdul Samad</i>	पिता/पुत्र/पत्नी/पति/पुत्री F/S/W/H/D of
--------------------------------	---

निदान/Diagnosis
AML

दिनांक/Date	उपचार/Treatment
<i>29/5/23</i>	<i>C-IR - d# 15 T. 6-TP 1/2 Tab q.m.s x 2 week रात में T. Septtran - SS 1 Tab M सोम R सुबह R अंश T. Acivik 100mg दाह इंजे- Endoxan 1VP d1 - 250mg d2 - 250mg इंजे Mesna 270mg 1VP d1 इंजे Zofen 4mg 1VP d2 इंजे Demora 4mg 1VP d1 d2</i>

*C.TD 1400x
20/5/2023
CTD 1400x
29/5/23
मातरा न. 15*

अंगदान-जीवन का बहुमूल्य उपहार/ORGAN DONATION - A GIFT OF LIFE
O.R.B.O., AIIMS, 26588360, 26593444, www.orbo.org Helpline - 1060 (24 hrs service)
बाहर से आने वाले रोगियों के लिए धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है/Dharamshala facility is available for outstation patients

6

Inj. ARA-C 50mg IV
29/5, 30/5, 31/5
5/6, 6/6, 7/6

T. Zofen 4mg. per ARA-C

IT-MTX 12mg x 1 day

Dated on 30/5/23 at 8:30

अनुमति
01-15

Inj. G-CSF 75mcg SC

8/6, 9/6
10/6

अनुमति
01-15

Give
Railway
Concession

FU with CBC on 12/6/23

Kindly accomodate
in Dharamdhara.

Sameer Bakshi

Dr. SAMEER BAKHSI
अनुमति दिवस अनुमति (अनुमति) Medical Oncology
डी. पी. आर. जी. पी. ए. डी. (D.P.A.G.P.E.D.) F.R.C.M.
अनुमति, नई दिल्ली (AIMS, New Delhi-29)
अनुमति पंजीयन नं./DMC Registration No. 1893.

12/6/23

Stop 6-MP (बन्द)
T. Folvite 5mg TDS x 3 days (अनुमति 3 दिन तक)
FU with CBC on 14/6

14/6/23

Cont Folvite 5mg x 5 days स्टॉप
FU with CBC TTT/TFT on
19/6/23 + Mg + Amylase + Lipase + FBS.



डा. बी. आर. अ.भा.आ.

अस्पताल के अन्दर

DR. B.R.A. IRCH, AIIMS, NEW DELHI
IRCH No. 297555 Reg. Date-20/03/2023
Clinic Paediatric Medical Oncology Clinic Clinic No. 6685/2023

वहिरंग Deptt. MEDICAL ONCOLOGY General
नाम UHID-106598688

Name MISTER ABDUL SAMAD ANSARI
S/G- NAJIR Sex/Age M/4Y
Room Board Room (Shift Morning)

Address GALI NO 22 SHANTI MOHALLA GANDHI NAGAR EAST, DELHI, Pin 110031, INDIA

लital

OPR-6

एकक/Unit MO
विभाग/Deptt. ONSO/PF
नाम/Name

Date of Birth

निदान/Diagnosis

B-ALL - IR

दिनांक/Date

उपचार/Treatment

date
19/06/23

ant- VCR 0.8 mg ivf
syprooz smt HS
aj. Emsed 2mg ivf
aj. MTX. 25mg ivf.

कमरा नं. 13
20/06/23 at 8:30am

Kindly give
outway concession
Kindly accomodate
in dharamshala

ITMTX-12 mg
28/06/2023

Room no. 13 8:30am

keep

वरिष्ठ रेजिडेंट/SENIOR RESIDENT
पैडियाट्रिक मेडिकल ऑन्कोलॉजी
डॉ. बी. आर. अ. भा. आ. आई. आई. एम.एस. न्यू दिल्ली

वरिष्ठ रेजिडेंट/SENIOR RESIDENT
पैडियाट्रिक मेडिकल ऑन्कोलॉजी
डॉ. बी. आर. अ. भा. आ. आई. आई. एम.एस. न्यू दिल्ली

अंगदान-जीवन का बहुमूल्य उपहार/ORGAN DONATION - A GIFT OF LIFE
O.R.B.O., AIIMS, 26588360, 26593444, www.orbo.org Helpline - 1060 (24 hrs service)
बाहर से आने वाले रोगियों के लिए धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है/Dharamshala facility is available for outstation patients

(7)



डा. बी. आर. अम्बेडकर संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल
Dr. B.R. Ambedkar Institute Rotary Cancer Hospital

J.I.M.S. HOSPITAL
Patient Department
PROHIBITED IN HOSPITAL PREMISES

OPR-6

DR. B.R.A. IRCI AHMS, NEW DELHI
IRCH No. 292555
Clinic Paediatric Medical Oncology Clinic
Deptt. MEDICAL ONCOLOGY
General

Reg. Date-20/03/2023

Clinic No. 6685/2023



रोगी पंजीकृत सं./O.P.D. Regn. No.

नाम
Name MISTER ABDUL SAMAD ANSARI
S/O- NAJIR
Room Board Room (Shift Morning)
Address GARHI HAFIZULLA KHAN, FARRUKHABAD, UTTAR
PRADESH, Pin.209625, INDIA

UIIID-106598688

Sex/Age M/4Y

लिंग Sex आयु Age जन्म तिथि/Date of Birth

निदान/Diagnosis

दिनांक/Date

उपचार/Treatment

4/9/23

DI- d# 29

CT D1 + Med
4/9/23 1.
CT D2 + AA-C
5/9/23 2.
5/9/23 3.

T. 6-MP 1/2 Tab q 2MS x 2 weeks
Cont septeran 1/2 tab
Inj. Endoxan 1VP
कारण 15

sf/23
Please accommodate
in Dharamshala

sf/23
Please accommodate
in Dharamshala
concession

1) - 300mg
2) - 250mg
3) 27fen 4mg 1VP - d1

5. Inj. AAA-C 50mg 1VP
4/9, 5/9, 6/9
11/9, 12/9, 13/9

SENIOR RESIDENT
MEDICAL ONCOLOGY
DR. B.R.A. I.C.H. & Dr. B.R.A. I.C.H.
New Delhi-29

आगदान-जीवन का बहुमूल्य उपहार/ORGAN DONATION - A GIFT OF LIFE
डॉ. बी.आर.अं. रो. कें. आई.आई.एम.एस., 26588360, 26593444, www.orbo.org Helpline - 1060 (24 hrs service)
वाहरे से आने वाले रोगियों के लिए धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है/Dharamshala facility is available for outstation patients

सेवा से:

श्री मान अध्यक्ष,
करुणा देवी फाउंडेशन

विषय - आर्थिक सखं चिकित्सा हेतु प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

निवेदन यह है कि मेरा नाम नाजिर है। मेरा निवास
आलय : अब्दुल खालिफ, गरीबी खोफिज उल्ला खां,
फरसखवाबाद, उत्तर प्रदेश, 209625 है। मेरा एक
बेटा है जिसका नाम अब्दुल समद है, और इसकी
आयु 5 वर्ष है। मेरे बेटे को BLOOD CANCER
है, और इसका इलाज दिल्ली के AIIMS में चल रहा है।
इसकी UHID - 106598688 है, इसके इलाज का
खर्चा उठाने में असमर्थ हूँ।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे बेटे का इलाज
कराने में मेरी आर्थिक सहायता करें।

धन्यवाद

आपका धार्मी

नाम - नाजिर ।

For Karuna Devi Foundation

U-1212
Charity




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India




पता: आत्मज: अब्दुल खालिद, गढी हॉफिज़ उल्ला
खां, फरुखाबाद, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, 209625
Address: S/O: Abdul Khalid, gadhi hafiz ulla
khan, Farrukhabad, Farrukhabad, Uttar
Pradesh, 209625

Print Date: 04/06/2022



8968 3330 0556



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



भारत सरकार

Government of India



Issue Date: 22/01/2015



नजिर

Najir

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1984

पुरुष / Male



8968 3330 0556



8968 3330 0556

मेरा **आधार**, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India




पता:

द्वारा: नजिर, 8/36, गढी हफीजुल्ला खान, फरुखाबाद,
फरुखाबाद,
उत्तर प्रदेश - 209625

Address:

C/O: Najir, 8/36, gadhi hafijulla khan,
Farrukhabad, Farrukhabad,
Uttar Pradesh - 209625



Download Date: 24/06/2023

2125 9186 8007

VID : 9168 7957 8562 1932



1947



help@uidai.gov.in

www

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



अब्दुल समद अंसारी
Abdul Samad Ansari
जन्म तिथि/DOB: 26/06/2019
पुरुष/ MALE

बाल आधार

यह आधार 5 वर्ष की उम्र तक ही वैध है

2125 9186 8007

VID : 9168 7957 8562 1932

मेरा आधार, मेरी पहचान



KARUNA DEVI FOUNDATION

Reg. Office: 309-E Padam Singh Road,
Karol Bagh, New Delhi-110005

Website: www.karunadevifoundation.org.in
E-mail Id: support@karunadevifoundation.org.in



